

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019
Secretary, Dairy Development (S007)

अलोटमेंट आई डी - S1812310321
आवंटन पत्र दिनांक -31-Dec-2018

ड्या - 781/XV-2/01(07/2018
- 031

HOD Name - Director Dairy Development (2353)
00 -

वर्षिक

- 2404 - डेरी विकांस
- 796 - जनजाति क्षेत्र उप योजना
- 02 - महिला डेरी विकास योजना
- 00 - महिला डेरी विकास योजना

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	1089000	211000	1300000
	1089000	211000	1300000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 211000